



दिनांक:- 24.11.2020

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



“सड़क सुरक्षा सप्ताह” का पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया समापन



आज दिनांक 24.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव एवं एआरटीओ महोबा श्री सुरेश कुमार वर्मा की उपस्थिति में दिनांक 18.11.2020 से 24.11.2020 तक परिवहन विभाग के सौजन्य से चलाये जा रहे “सड़क सुरक्षा सप्ताह” का आज सरस्वती विद्या मन्दिर इंटर कॉलेज, महोबा में आयोजित कार्यक्रम में समापन किया गया। समापन समारोह में पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई तथा लोगों से वाहन चलाते समय हेलमेट व शीट-बेल्ट लगाने की अपील की

गई तथा 18 वर्ष से कम आयु को लोगों को वाहन न चलाने की नसीहत दी गई साथ ही नशे में व तेज गति से भी वाहन न चलाने को कहा गया। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही की बात भी कही गई। इस दौरान एआरटीओ द्वारा भी यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई ताकि लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। समापन समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता रमेश यादव, संयुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री रामजी गुप्ता GGIC प्रधानाचार्या श्रीमती सरगम खरे आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे।





दिनांक:- 24.11.2020

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



“मिशन शक्ति” के तहत छात्राओं को किया गया जागरुक



आज दिनांक 24.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में उ0प्र0 शासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान ***मिशन शक्ति*** के तहत लगातार बालिकाओं/महिलाओं को जागरुक किया जा रहा है। जिसके क्रम में आज निरीक्षक श्रीमती रचना सिंह

नोडल अधिकारी मिशन शक्ति द्वारा बुन्देलखण्ड डिग्री कालेज, श्रीनगर में जाकर महाभियान **"मिशन शक्ति"** के तहत छात्राओ को जागरुक किया गया तथा महिला हेल्पलाइन नम्बर- 1090, 181, 112,1076 को साझा किया गया एवं महिला सम्बन्धी कानून आदि की जानकारी देते हुये उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया।

जागरुक करने हुये बताया गया कि थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क में महिला अधिकारी की नियुक्ति की गयी है, जहां आप अपने साथ हुये दुर्व्यवहार/अभद्रता को खुलकर बता सकेंगी एवं जिसका त्वरित निस्तारण महिला हेल्प डेस्क में नियुक्त पुलिस महिला अधिकारी द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम में प्र0नि0 श्रीनगर श्याम प्रताप पटेल, प्रधानाचार्य श्री विश्वनाथ सिंह सहित अध्यापकगण व छात्राएं उपस्थित रही।





दिनांक:- 24.11.2020

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना महोबकंठ पुलिस ने अवैध शराब सहित दो अभियुक्ता को किया गिरफ्तार



दिनांक 23.11.2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के अनुपालन में चलाये जा रहे अवैध शराब बरामदगी अभियान के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार थाना महोबकंठ महोबा के कुशल निर्देशन में गठित टीम उ0नि0 सचिन कुमार मय हमराह कां. मनोज कुमार एवं आबकारी टीम निरीक्षक श्री योगेश कुमार मय हमराह कां. मुस्ताक उल्ला, कां. हमीद अहमद खॉन, म.कां.संगीता देवी के अभियान में सम्मिलित होकर 02 नफर अभियुक्ता गण (1)- श्रीमती सरस्वती पत्नी सुखदेव उम्र करीब 26 वर्ष नि0ग्राम बसरिया थाना मऊ जनपद झांसी हाल पता कबूतरा डेरा सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा (2)-श्रीमती भूरी

पत्नी खन्ना कबूतरा उम्र करीब 40 वर्ष नि0ग्राम बसरिया थाना मऊ जनपद झांसी हाल पता कबूतरा डेरा सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा के कब्जे से 15-15 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद की गयी व अभियुक्ता गण के विरुद्ध मु0अ0सं0 क्रमशः 176/20 व 177/20 धारा 60 Ex Act थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थाना महोबकंठ

1. उ0नि0 सचिन कुमार

2. कां. मनोज कुमार

आबकारी टीम महोबा

1. निरीक्षक श्री योगेश कुमार

2. कां. मुस्ताक उल्ला

3. कां. हमीद अहमद खॉन

4. म.कां. संगीता देवी

माल बरामदगी-

15-15 (कुल 30 ली0) लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना।

अभियुक्त नाम पता-

(1)- श्रीमती सरस्वती पत्नी सुखदेव उम्र करीब 26 वर्ष नि0ग्राम बसरिया थाना मऊ जनपद झांसी हाल पता कबूतरा डेरा सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा।

(2)- श्रीमती भूरी पत्नी खन्ना कबूतरा उम्र करीब 40 वर्ष नि0ग्राम बसरिया थाना मऊ जनपद झांसी हाल पता कबूतरा डेरा सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा।



दिनांक:- 24.11.2020

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



महोबा पुलिस द्वारा शान्ति तथा सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर फ्लैग मार्च करके की गई अराजक तत्वों की चेकिंग व लोगों को कोविड-19 के प्रति किया गया जागरूक



आज दिनांक 24.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में शान्ति तथा सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत चलाये जा रहे पैदल गस्त के दौरान संदिग्धो/संवेदनशील/बाजार/धार्मिक जगहों की चेकिंग एवं **कोविड-19** के मद्देनजर मास्क चेकिंग/जागरूकता अभियान के तहत जनपद के

समस्त थानों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के मुख्य बाजार/संवेदनशील जगहों पर पैदल गस्त करके चेकिंग की गई।

पैदल गस्त के दौरान लोगों को कोविड-19 संक्रमण के बारे में जागरूक भी किया गया। लोगों से मास्क लगाने व 02 गज की दूरी बनाये रखने की अपील की गई।

